



सोशल मीडिया के जरिए कोहली देश हित में करेंगे ये बड़ा काम

September 14, 2019

अरविन्द मिश्रा की रिपोर्ट। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली एक बार फिर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने आगे आए हैं. उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'प्लास्टिक कचरे से मुक्त' भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए FSSAI के साथ हाथ बढ़ाया है. जिसके अंतर्गत कोहली न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में फैले अपने प्रशंसकों को सोशल मीडिया अकाउंट ट्वीटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए प्लास्टिक और पॉलीथिन के उपयोग से बचने की सलाह देंगे.



गुरुग्राम के एमजीएफ मॉल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे विराट कोहली ने कहा कि "उन्होंने खुद प्लास्टिक और पॉलीथिन के कम से कम उपयोग का संकल्प लिया है, वह दूसरों से भी

ऐसा करने का आह्वान करते हैं." उन्होंने लोगों को स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आह्वान करते हुए कहा कि "मेरे बालों और कपड़ों की नकल करने के बजाय देश और समाज के हित में किए जा रहे कार्यों से प्रेरित हों, आइए देश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाने के इस महाअभियान में एक दूसरे के प्रयासों को मजबूत करें. " आगे उन्होंने कहा कि "अब वक्त समस्याओं पर सिर्फ बात करने का नहीं है, बल्कि उन पर काम करने का आ गया है. "



एफएसएसएआई अपने प्रयासों को और प्रभावी बनाएगा

इस मौके पर एफएसएसएआई के सीईओ पवन अग्रवाल ने कहा कि विराट कोहली क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी होने के साथ ही एक अच्छे इंसान भी हैं, इस कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास देश को कराया है. उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई जल्द ही स्वस्थ और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिशा में इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न शेयरधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम को और तेज करेगा.

प्लास्टिक कचरे से मुक्त भारत के लिए FSSAI की हालिया पहल



FSSAI
@fssaiindia



Supported in Public

Interest.#EatRightIndia#SustainableLiving #EatRightIndiaMovement@imVkohli @ceo_fssai @MoHFW_INDIA @drharshvardhan @ndtv @htTweets @RCBTweets @swachhbharat @SwachhBharatGov @SBMGramin



63 5:05 PM - Sep 12, 2019

19 people are talking about this

आपका बता दें कि हालही में एफएसएसएआई ने फूड इंडस्ट्री में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए कुछ कड़े नियम बनाकर उनका सख्ती से पालन तय किया है. इनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं.

1. होटल प्लास्टिक की बॉटल की जगह पेपर सील कांच की बोटलों का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें बीआईएस से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस संबंध में आदेश जारी किया गया है.
2. बांस की बनी वस्तुओं के विकल्प को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा, यह प्लास्टिक के स्ट्रॉ, प्लेट, कटोरियों, सब्जियों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू और छिलनी आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है.
3. मिठाइयों और पेय पदार्थों आदि की पैकेजिंग दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले बॉटल को लेकर कठोर नियमों को सरल बनाकर, इस पहल को प्रोत्साहित करना.
4. पीईटी बॉटल में पीने का पानी भरते वक्त तरल नाइट्रोजन के इस्तेमाल की अनुमति देना.